



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 119]  
[No. 119]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 1984/चैत्र 1, 1906  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 1984/CHAITRA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1984

का. आ. 173 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (घ) और (च) के अधीन आदेश देने की शक्ति का प्रयोग, इससे उपायुक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी किस्म के पशु चारे के सम्बन्ध में, कर्नाटक राज्य की सरकार भी उस राज्य में करेगी।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और 31 जुलाई, 1984 तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

अनुसूची

पशु चारे की किस्में

1. रागी सूखी घास
2. चावल डंठल

3. कड़वी

4. मक्का की भूसी

5. ज्वार की भूसी

6. भूसी और चावल का भूसा

7. चने का भूसा

8. गेहूं चौकर

9. वितिलित चावल चौकर

[संख्या 32-8/80-एल.डी.2]

पी. एस. कोहली, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 1984

S.O. 173(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the power to make orders